

(9) ट्रेड—पुस्तकालय विज्ञान

कक्षा—11

1—उद्देश्य—

- (1) एक ही पुस्तकालय कर्मी द्वारा चलाये जाने वाले पुस्तकालय की स्थापना करने, उसके संगठन, संचालन तथा व्यवस्था की योजना बनाने लायक दक्षता प्रदान करना।
- (2) मध्यम आकार के पुस्तकालय में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में कार्य कर पाने की दक्षता प्रदान करना।
- (3) किसी बड़े पुस्तकालय में पुस्तकालय सहायक के रूप में कार्य करने लायक दक्षता प्रदान करना।
- (4) पुस्तकालय के विभिन्न अनुभागों में कार्य कर पाने लायक दक्षता प्रदान करना।

2—रोजगार के अवसर—

(क) वेतन भोगी रोजगार—

1—ग्रामीण पुस्तकालय कम्यूनिटी सेन्टर, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र तथा पंचायत पुस्तकालयों में मुख्य हस्तान्तरण।

2—माध्यमिक विद्यालयों, ब्लाक, तहसील, तालुका पुस्तकालय में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष।

3—माध्यमिक विद्यालयों, ब्लाक, तहसील, तालुका पुस्तकालयों में वर्गीकरण सहायक।

4—कैटलागर।

5—पुस्तकालय सहायक।

6—लैंडिंग सहायक।

7—प्रतिछायांकन सहायक।

8—पुस्तकालय लिपिक।

9—पुस्तक प्रदाता।

10—जेनीटर।

11—पुस्तक संरक्षण सहायक।

(ख) स्वरोजगार—

1—पुस्तकालय लेखन—सामग्री निर्माता एवं पूर्तिकर्ता।

2—पुस्तकालय साज—सज्जा एवं उपकरण।

3—कीटनाशक दवाइयों के विक्रेता।

4—पुस्तकालय परामर्श सेवा।

5—शोध छात्रों के लिये वाड़मय सूची तैयार करने का व्यवसाय।

6—प्रतिछायांकन का व्यवसाय।

7—पुस्तक विक्रय व्यवसाय।

पाठ्यक्रम—

इस ट्रेड में तीन—तीन घंटे के पांच प्रश्न—पत्र और प्रयोगात्मक परीक्षा भी होगी। अंकों का विभाजन निम्नवत् रहेगा :

	पूर्णांक	उत्तीर्णांक
(क) सैद्धान्तिक—		
प्रथम प्रश्न—पत्र	60	20
द्वितीय प्रश्न—पत्र	60	20
तृतीय प्रश्न—पत्र	60	20
चतुर्थ प्रश्न—पत्र	60	20
पंचम प्रश्न—पत्र	60	20
(ख) प्रयोगात्मक—	400	200
	300	100

नोट—परीक्षार्थियों को प्रत्येक लिखित प्रश्न—पत्र में न्यूनतम उत्तीर्णक 20 तथा योग में 33 प्रतिशत अंक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में 50 प्रतिशत उत्तीर्णक पाना आवश्यक है।

प्रथम प्रश्न—पत्र

पुस्तकालय संगठन एवं संचालन—सैद्धान्तिक

संगठन—1—विषय प्रवेश, पुस्तकालय का परिचय एवं परिभाषा, पुस्तकालय का उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। 30

पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धान्त, पुस्तकालयों के विभिन्न रूप (प्रकार), पुस्तकालय विस्तार का कार्यक्रम—प्रसार एवं प्रचार कार्य।

2—पुस्तकालय सहयोग, पुस्तकालय भवन, उपस्कर एवं उपकरण, पुस्तकालय वित्त व्यवस्था, पुस्तकालय कर्मचारी, भारत में पुस्तकालय आन्दोलन का इतिहास, पुस्तकालय अधिनियम, पुस्तकालय संघ पुस्तकालय सुरक्षा एवं संरक्षण। 30

द्वितीय प्रश्न—पत्र

1—(1) संदर्भ सामग्री, परिभाषा, प्रकार, श्रेणियाँ, विशिष्ट गुण। 20

(2) संदर्भ सामग्री के मूल्यांकन का सिद्धान्त एवं मूल्यांकन।

2—विविलियोग्राफ(वाड़मय सूचियाँ), परिभाषा, आवश्यकता, उद्देश्य, क्षेत्र, प्रकार, फिजिकल विविलियोग्राफी, परिभाषा, 20

आवश्यकता, प्रकार, विधियां, डाक्यूमेन्टेशन, परिभाषा, आवश्यकता, प्रकार, शीर्ष—मेटेरियल, कार्यविधि, इन्फारेशन सेन्टर—यूनेस्को, विनीत, निसात, इफला, इंसर्डॉक।

3—संदर्भ सेवा के प्रकार, संदर्भ प्रश्नों के प्रकार, संदर्भ पुस्तकालयाध्यक्षों की योग्यतायें एवं गुण। 20

तृतीय प्रश्न—पत्र

पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण (सैद्धान्तिक)

वर्गीकरण—1—पुस्तकालय वर्गीकरण का परिचय, अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य। वर्गीकरण के सामान्य सिद्धान्त, 30

पदार्थ विष्लेषण, विभाजक, विशेषता, लोक (डा० रंगनाथन का सिद्धान्त), ज्ञान वर्गीकरण के सिद्धान्त, ज्ञान वर्गीकरण, पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धान्त, परिभाषा, पुस्तक वर्गीकरण की परम्परा, पुस्तक वर्गीकरण का महत्व, ज्ञान वर्गीकरण एवं पुस्तक वर्गीकरण/पुस्तक वर्गीकरण पद्धति के विशिष्ट अवयव, सारणी, सामान्य वर्ग रूप, वर्ग अंकन, सापेक्ष अनुक्रमणिका, सहायक सारणियाँ और तालिकायें।

2—पुस्तक वर्गीकरण, पद्धतियों का विकास, प्रमुख पुस्तक वर्गीकरण, पद्धतियों का संक्षिप्त परिचय तथा ड्युर्झा 30

दशमलव पद्धति एवं द्विबिन्दु वर्गीकरण पद्धति का अध्ययन।

चतुर्थ प्रश्न—पत्र

वर्गीकरण—प्रायोगिक (लिखित)

1—प्रायोगिक कार्य “हिन्दी ड्युर्झा दशमलव वर्गीकरण” अनुवादक प्रभु नारायण गोप के नवीनतम संस्करण से 60

कराया जायेगा।

नोट—1—यह प्रश्न—पत्र भी अन्य लिखित प्रश्न—पत्रों की भाँति होगा।

2—परीक्षा कक्ष में निर्धारित वर्गीकरण पद्धति की केवल सारणी प्रत्येक परीक्षार्थी को उपलब्ध की जायेगी।

पंचम प्रश्न—पत्र

सूचीकरण—प्रायोगिक (लिखित)

प्रायोगिक सूचीकरण ए०ए०सी०आर०—२ संहिता के अनुसार कराया जायेगा। विषय शीर्षक के निर्माण हेतु शेयर लिस्ट आफ सब्जेक्ट ट्रेडिंग के अद्यतन संस्करण का प्रयोग किया जायेगा।

नोट—1—यह प्रश्न—पत्र भी अन्य प्रश्न—पत्रों की भाँति होगा।

2—इस प्रश्न-पत्र हेतु उत्तर-पुस्तिका में एक ओर 3"×5" सूची-पत्र का प्रारूप मुद्रित होना चाहिये। प्रारूप का नमूना निम्नवत् है—

5"

3"		
----	--	--

यदि उपरोक्त प्रारूप को उत्तर-पुस्तिका पर मुद्रित कराना सम्भव न हो तो प्रत्येक परीक्षार्थी को वांछित संख्या से सूची-पत्रक उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की रूप-रेखा

प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम

1—सन्दर्भ सेवा प्रायोगिक—

संदर्भ सामग्री का मूल्यांकन करना
 विभिन्न प्रकार की वाड़मय सूचियाँ तैयार करना
 फिजिकल विविलियोग्राफीज का ज्ञान करना
 डाक्यूमेन्टेशन के सोर्स मैटीरियल छात्रों को दिखाकर उनका परिचय करना

2—सन्दर्भ सेवा “वाड़मय सूची एवं डाक्यूमेन्टेशन (प्रायोगिक)”—

200 अंक

डाक्यूमेन्टेशन लिस्ट तैयार करना
 इन्डेक्सिंग करना
 ऐक्सट्रेकिंग करना
 विविलियोग्राफी तैयार करना
 सत्रीय कार्यों का मूल्यांकन एवं मौखिक परीक्षा
 सत्रीय कार्यों पर
 कार्य स्थल (प्रयोगशाला)
 परीक्षक द्वारा

प्रयोग एवं मौखिक—

- 1—वर्गीकरण प्रायोगिक
- 2—सूचीकरण प्रायोगिक
- 3—सन्दर्भ सेवा, वाड़मय सूची
- 4—मौखिक

नोट—(1) सत्रीय कार्यों का मूल्यांकन एवं मौखिक परीक्षा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम प्रश्न-पत्रों में निर्धारित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत ही ली जायेगी।

(2) प्रयोगात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये 50 प्रतिशत अंक पाना आवश्यक है।

संस्तुत पुस्तकें—

क्रमांक	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम एवं पता	संस्करण पुनर्मुद्रण वर्ष	मूल्य रूपया
1	2	3	4	5	6
1	ग्रन्थालय वर्गीकरण	डा० जी०डी० भार्गव	मध्य प्रदेश हिन्दी अकादमी, (वितरक—विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी)	ग्रन्थ भोपाल हिन्दी (वितरक—विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी)	1988 25.00

2	सन्दर्भ सेवा सिद्धान्त और प्रयोग	के० एस० सुन्दरेखन	मध्य अकादमी, हिन्दी भोपाल (वितरक—विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी)	प्रदेश	हिन्दी	ग्रन्थ	1985	30.00
3	पुस्तक चयन और संदर्भ सेवा	"	"				1985	16.00
4	सूचीकरण के सिद्धान्त	गिरिजा कुमार, कृष्ण कुमार	वाणी एजूकोन बुक्स, दिल्ली (वितरक—विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी)	वाणी	एजूकोन बुक्स, दिल्ली		1984	35.00
5	पुस्तकालय संगठन एवं प्रशासन	डा० राम शोभित प्रसाद सिंह	बिहार ग्रन्थ अकादमी, पटना (वितरक—विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी)	बिहार	ग्रन्थ अकादमी,	पटना	1987	40.00
6	प्रलेखीय ग्रन्थ वर्णन	एस०टी० मूर्ति	मध्य प्रदेश हिन्दी अकादमी, भोपाल	प्रदेश	हिन्दी	अकादमी, भोपाल	1981	18.00
1	2	3	4	5	6			
7	पुस्तकालय संगठन एवं संचालन	सुभाष चन्द्र राजस्थान वर्मा एवं श्याम अकादमी नारायण श्रीवास्तव	राजस्थान हिन्दी	1988	30.00			
8	ग्रन्थालय संचालन तथा प्रशासन	श्याम सुन्दर श्रीराम मेहरा अग्रवाल एण्ड कम्पनी, हास्पिटल रोड, आगरा	श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, हास्पिटल रोड, आगरा	1989	70.00			
9	पुस्तकालय विज्ञान कोष	प्रभु नारायण गौड़ बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्	बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्	1961	13.50			
10	विद्यालय पुस्तकालय	प्रभु नारायण गौड़ बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना	बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना	1977	09.50			
11	पुस्तकालय विज्ञान परिचय	द्वारका प्रसाद साहित्य भवन प्रा०लि०, शास्त्री इलाहाबाद	साहित्य भवन प्रा०लि०, इलाहाबाद	1988	30.00			
12	पुस्तक चयन एवं रचना	चन्द्र कान्त शर्मा "		1975	25.00			
13	वाड्मय सूची और प्रलेखन	द्वारका प्रसाद शास्त्री "		1983	25.00			
14	पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धान्त एवं प्रयोग	भास्करनाथ तिवारी विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी	विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी	1983	30.00			
15	पुस्तक वर्गीकरण	भास्करनाथ तिवारी यूनिवर्सल बुक सेलर, लखनऊ	यूनिवर्सल बुक सेलर, लखनऊ	1983	30.00			
16	पुस्तक सूचीकरण सिद्धान्त	भास्करनाथ तिवारी यूनिवर्सल बुक सेलर, लखनऊ	यूनिवर्सल बुक सेलर, लखनऊ	1983	25.00			
17	संदर्भ सेवा	भास्करनाथ तिवारी यूनिवर्सल बुक सेलर, लखनऊ	यूनिवर्सल बुक सेलर, लखनऊ	1983	15.00			
18	पुस्तकालय परिचय	द्वारका प्रसाद शास्त्री विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी	विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी	1983	15.00			